

बाद अपने देशों को छोड़ कर आने वाले तथा अन्य देशों में जा कर बसने वाले व्यक्तियों को शरणार्थी नहीं कहा जायेगा।

(ख) यदि हां, तो भारत में आकर बसे तिब्बती लोगों का दर्जा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि शरणार्थियों की सहायता करने हेतु धन इकट्ठा कर के लिये यूरोपीय देशों की एक समिति बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस निधि से तिब्बती लोगों को भी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी ?

**बैदेशिक-कार्य मंत्री ( श्री सु० क० चाणला ) :** (क) शरणार्थियों के दर्जे पर अभिसमय, 1951 के अनुच्छेद 1 के अनुसार 'शरणार्थी' शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो 1 जनवरी, 1951 से पूर्व होने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप अपनी राष्ट्र-कता के देश से बाहर रहता है। इस प्रस्ताव का यह अर्थ लगाया गया है कि उस तारीख के बाद होने वाली घटनायें उसमें नहीं आती लेकिन वे लोग इससे बहर नहीं जो उस तारीख से पहले होने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप बाद में किसी तारीख को शरणार्थी बन गये हों।

(ख) जो तिब्बती लोग चीनी अत्याचारों के कारण परमपावन दलाई लामा के साथ अथवा भारत में उनके आने के बाद, भारत में आने शुरू हुए, वे शरणार्थी माने जाते हैं। जो लोग इस से पहले व्यापार अथवा अन्य किन्हीं कार्यों से भारत आये थे और 1959 से पहले भारत में बस गए थे, उन्हें शरणार्थी नहीं माना जाता।

(ग) जी हां।

(घ) इस विषय में यूरोपीय शरणार्थी आंदोलन समिति 1966 फैसला करेगी। हमें अनौपचारिक तौर पर मालूम हुआ है कि भारत में तिब्बती शरणार्थियों

पुनर्वास के लिये इस एकत्रित धनराशि में से कुछ धन अलग रख देने का विचार है।

#### Radio Station, Port Blair

**400. Shri K. R. Ganesh:** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to upgrade the Port Blair Radio Station in the Andaman and Nicobar Islands; and

(b) if so, when it will be implemented?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):** (a) Yes, Sir.

(b) The equipment required for the project is being arranged. It is proposed to upgrade the Station within the Fourth Five Year Plan period.

#### Use of I.A.F. Plane for election purposes

**401. Shri Baburao Patel:** Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the number of times Prime Minister used the aircraft of the Indian Air Force for her election campaign;

(b) the total mileage covered by her and the payment made to the I. A. F. in this regard; and

(c) the places where the I. A. F. aircraft was taken for election purposes?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):** (a) and (b). Eighteen flights were undertaken by the IAF aircraft for the journeys of the Prime Minister in connection with her Election campaign and the total distance flown was 22,674 miles. The airlift charges recoverable from the Prime Minister and her party amount to Rs. 28,084.18. Payment

from the Prime Minister has already been received.

(c) The flights were undertaken to the following places:—

Gauhati, Shillong, Lucknow, Begumpet (Hyderabad), Madras, Sulur, Madurai, Trichurapalli, Bangalore, Belgaum, Bombay, Trivandrum, Cochin, Kota, Banswara, Udaipur, Jaipur, Nagpur, Akola, Nander, Aurangabad, Nasik, Kolahpur, Poona, Indore, Nagda, Bhopal, Bareilly, Kalaikunda, Dum Dum, Barackpore (Calcutta), Charbatia, Bhuvaneshwar and Patna.

संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत का अंशदान

402. श्री रबी राय :

श्री मधु लिम्बे :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विविध व्यय शीर्षक के अन्तर्गत भारत को कुल कितनी राशि का अपना अंश संयुक्त राष्ट्र संघ को देना पड़ता है ; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ को विदेशी मुद्रा में तथा रुपयों में कितनी राशि देनी पड़ती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० आगला) : (क) भारत हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र के कुल बजट के 1.85 प्रतिशत की दर से अपना हिस्सा देता है। पिछले तीन वर्षों में संयुक्त राष्ट्र का बजट 1080 लाख और 1310 लाख डालर के बीच रहा है और भारत का अंशदान 15 लाख और 20 लाख डालर के बीच रहा है। संयुक्त राष्ट्र बजट के पृथक शीर्षकों के अन्तर्गत कोई अलग अंशदान देने की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय विनियमों के अन्तर्गत वह अपने नियमित वार्षिक बजट के लिये बदलने योग्य मुद्राओं को छोड़ कर अन्य मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं करता। इस लिये, भारत समेत सभी देश बदलने वाली मुद्राओं में ही अदायगियां करते हैं।

**Function connected with presentation of Netaji's Sword to Netaji Museum**

403. Shri Samar Guha: Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the sword of Netaji Subhas Chandra Bose was presented to Netaji Museum in Calcutta by Gen. Fujiwara of Japan on the 19th March, 1967;

(b) whether it is also a fact that no representative of the Central Government attended the function; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir. Lt. Gen. Iwaichi Fujiwara, retired Japanese Army Officer, and some of his friends who came in contact with Netaji Subhas Chandra Bose during World War II, had discovered in a curio shop in Japan the sword presented to Netaji at Singapore in 1943 by a Japanese well-wisher, and the same was brought to India by Lt. General Fujiwara and presented to the Netaji Museum in Calcutta.

(b) and (c). The sword was originally presented to the Indian Ambassador in Tokyo at an appropriate ceremony. The presentation ceremony at Calcutta was presided over by the Governor of West Bengal, Miss. Padmaja Naidu. The Government of India had helped in the arrangements for the occasion.

**Naval Base at Paradeep Port**

404. Shri S. Kundu: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the progress made in the